



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २३७

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई ६, १९७७/आषाढ़ १५, १८९९

No 237]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6 1977/ASADHA 15, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 6th July 1977

G.S.R. 479(E).— In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby directs that the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) specified in column (2) of the Table hereto annexed, shall be further amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

THE TABLE

S. No.	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1	80/76—Central Excise, dated the 16th March, 1976.	In the Table annexed to the said notification, S. No. 1 and the entries against the said S. No. shall be omitted.
2	123/76—Central Excise, dated the 16th March, 1976	In the Table annexed to the said notification, S. No. 1 and the entries against the said S. No. shall be omitted.

[No. 212/77]

राजस्व और बैंकिंग विभाग

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1977

सा. का नि '479(अ).—केन्द्रीय सरकार, अनिवार्य उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश करती है कि भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व और वीमा विभाग), की वे अधिसूचनाएं जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त गारणी के स्तम्भ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति में मंशोधित की जाएगी।

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना सं. और तारीख	मशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	80 76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में से क्रम सं 1 और उसके सामने की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।
2.	122 76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में से क्रम सं 1 और उसके सामने की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[सं. 212 77]

G.S.R. 480 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Department of Revenue and Banking No. 131/77—Central Excises, dated the 18th June, 1977, namely :—

In the proviso to the said notification, in item (ii), the following shall be inserted at the end, namely :—

“subject to the condition that such yarn is purchased by a registered handloom cooperative society or any organisation set up or approved by the Government for the development of handlooms, and payment for such yarn is made by cheque drawn by such cooperative society or organisation, as the case may be, on its own Bank Account;”

[No. 213/77]

LAJJA RAM, Dy. Secy.

सा.का.मि. 480(अ).—केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व और बँकिंग विभाग की अधिसूचना म 131 77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जन, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना के परन्तुक में, मद (ii) में, अन्त में निम्नलिखित अन्त स्थापित किया जाएगा, अर्थात् .—

“इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ऐसा सूत्र रजिस्ट्रीकृत हथकरघा सहकारिता सोसाइटी द्वारा हथकरघा के विकास के लिए सरकार द्वारा स्थापित या अनुमोदित किसी संगठन द्वारा क्रय किया जाता है, और ऐसे सूत्र के लिए सदाय ऐसी सहकारिता सोसाइटी या संगठन द्वारा अपने बैंक खाते से बैंक काट कर किया जाता है ;”

[सं. 213/77]

लज्जा राम, उप सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

